

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल 2022 — वैशाख 7, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 अप्रैल 2022

अधिसूचना

एफ-3-5/2013/1-7. — विभागीय समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 11-11-2021 द्वारा जिला बस्तर के थाना दरभा अंतर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में दिनांक 25-05-2013 को घटित नक्सलियों द्वारा कारित की गई हिंसात्मक घटना के संबंध में जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक महत्व के विषय की विशेष जांच हेतु दो सदस्यीय पुनर्गठित न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिवक्ता, सिविकम उच्च न्यायालय तथा सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. मिनहाजुद्दीन, पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय बिलासपुर हैं। जांच आयोग को सौंपे गये जांच बिन्दुओं के अंतर्गत उक्त घटना के सम्पूर्ण पहलुओं के तथ्य एवं पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं होने के कारण पूर्व में जारी अधिसूचना की बिन्दुओं में अतिरिक्त बिन्दुओं को जोड़ते हुए अधिसूचना के प्रकाशन से 06 माह के भीतर जांच पूर्ण कर राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपने हेतु लिखा गया है, परंतु निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण जांच आयोग के कार्यकाल में वृद्धि किया जाना है। आयोग का कार्यकाल दिनांक 10-05-2022 को समाप्त हो रहा है।

2. चूंकि जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः आयोग के प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन एतद्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 11-05-2022 से दिनांक 10-11-2022 तक 06 माह की वृद्धि करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.